

**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान**  
**वरिष्ठ रिसर्च फेलो (एस.आर.एफ) हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू**

पद का नाम	वरिष्ठ रिसर्च फेलो (एस.आर.एफ.)
अवधि	3 वर्ष
परियोजना का नाम (डी476)	ए नोवल कॉम्बिनेटोरियल एप्रोच फॉर न्यूरोरीजेनेरेशन इन इन-वीवो स्पाइनल कोर्ड इन्जर्ड रेट मॉडल: इम्प्लांटेशन ऑफ न्यूरोट्रोफिक फैक्टरस कोटेड आयरन ऑक्साइड नैनोपार्टिकल्स इम्प्रेग्नेटेड इन बायोकोम्पैटीबल हाइड्रोजेल सिस्टम।
शैक्षिक योग्यता	एम.एस-सी. 2 साल के अनुसंधान अनुभव सहित।
कार्य विवरण	इन-वीवो न्यूरोनल कल्चर तथा एनीमल मॉडल में अनुभव। तंत्रिका विज्ञान (न्यूरोसाइंस) की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।
परिलब्धियां/वेतन	28,000/- प्रति माह + 30% एच.आर.ए.
वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि	24 दिसम्बर, 2018, प्रातः 10.30 बजे
स्थान	शरीरक्रिया विज्ञान विभाग, एम्स, कमरा सं. 2020
उम्मीदवारों का पंजीकरण	प्रातः 9:30 बजे से 10:00 बजे तक कमरा सं. 2018 में

**कृपया ध्यान दें:**

1. सत्यापन के लिए उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन पत्र भरें।
2. अधूरी सूचना वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने की तारीख स्पष्ट रूप से दर्शायी जाएं।
4. केवल पंजीकृत उम्मीदवारों का ही साक्षात्कार किया जाएगा।
5. साक्षात्कार में भाग लेने के लिए किसी टी.ए./डी.ए. का भुगतान नहीं किया जाएगा।

**निर्धारित प्रारूप**

1. नाम
2. पिता का नाम
3. जन्म तिथि
4. श्रेणी

5. पता
6. ई-मेल
7. दूरभाष
8. व्यावसायिक अनुभव

विषय सहित उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय	प्रतिशत/श्रेणी	टिप्पणी

9. पिछला अनुभव एवं वर्तमान रोजगार, यदि कोई है तो,

## ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

### WALK-IN INTERVIEW for Senior research Fellow (SRF)

NAME OF THE POST	Senior Research Fellow (SRF)
DURATION	3 years
NAME OF THE PROJECT (D476)	A novel combinatorial approach for neuroregeneration in in-vivo spinal cord injured rat model: implantation of neurotrophic factors coated iron oxide nanoparticles impregnated in biocompatible hydrogel system
EDUCATIONAL QUALIFICATIONS	M.Sc with 2 years research experience
JOB DESCRIPTION	Experience in in-vivo neuronal culture and <b>animal model</b> . Person with knowledge in <b>neuroscience</b> will be preferred.
EMOLUMENTS/ SALARY	28,000/- per month + 30%HRA
WALK IN INTERVIEW ON	24 <sup>th</sup> December, 2018, 10.30 am
VENUE	Department of Physiology, AIIMS room no 2020
REGISTRATION OF CANDIDATES	9:30 am to 10 am in room no 2018

#### PLEASE NOTE-

1. CANDIDATE MAY FILL UP APPLICATION IN THE PRECRIBED FORMAT ALONG WITH NECESSARY DOCUMENTS FOR VERIFICATION.
2. APPLICATIONS CONTAINING INCOMPLETE INFORMATION SHALL NOT BE ENTERTAINED.
3. DATE OF PASSING THE EXAMINATIONS MUST BE INDICATED CLEARLY.
4. ONLY REGISTERED CANDIDATES WILL BE INTERVIEWED.
5. NO TA/DA WILL BE PAID FOR ATTENDING THE INTERVIEW

**PRESCRIBED FORMAT**

1. Name
2. Father's Name
3. Date of Birth
4. Category
5. Address
6. E-mail
7. Telephone
8. Professional experience

Name of the examination passed with subject	Year of Passing	Board / University	% Division	Remark

9. PAST EXPERIENCE & PRESENT EMPLOYMENT, IF ANY